

Series HRKCode No. **60**

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- Please check that this question paper contains **6** printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **12** questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

SUMMATIVE ASSESSMENT – II**TAMANG***Time allowed : 3 hours**Maximum Marks : 90*

The question paper is divided into **six** sections :

Section A : Reading Comprehension	10 Marks
Section B : Essay Writing	10 Marks
Letter Writing	05 Marks
Translation	05 Marks
Section C : Applied Grammar	25 Marks
Section D : Literature, Prose	14 Marks
Section E : Poetry	15 Marks
Section F : Play	06 Marks

SECTION B : Essay Writing

(མན་བྲི)

༩། ཁ་ཇི་བཅ་ གི་ག་ ཉམ་ཉང་འི་ གྱུར་ཇ་གི་ག་ ཚོག་ལ་ མན་བྲི་ བྲི་གོ་ :- (10)

གཏེ་ བྱང་ལ་ རེ་མོ་ཇོང་། ཁཏེ་ མོ་བཅ་ ལྷོ་ཚར་།

༡༠། Letter Writing (ལྷུག་བྲི) (5)

གཏེ་ བྱང་ ལྷོ་བསེལ་མ་ འོ་བཤའང་འི་ ཁ་བ་འི་ ཨཱཱམ་བ་ ལྷོ་སེ་བཅ་ ཙོ་ཏོ་ འོ་བཤའབྱང་
ཉི་རེ་ཉ་ལ་ ལྷོ་ལ་གོ་ བྲི་གོ་ :-

༡༡། Translation (ཉམ་འང་ ལྷོ་ཉ་འི་ གྱུ་ལོ་ ལུག) (5)

There once lived a good man who had four sons. They often quarreled all day long. This made the father's heart ache with sadness. One day, when ill in bed, the father called the sons to his bedside. In his right hand he held a bundle of sticks bound tightly together "Here my sons," said he, "I should like to have each of you to try break the bundle of sticks." Each son, in his turn, tried with all his might but the bundle of sticks was too strong for him. Then the father untied the bundle giving a single stick to each son. He asked them to break the stick he had given them. This each son could do. "See, my sons," said the father, "a stick is broken very easily when it is alone, but when bound into a bundle, it cannot be harmed. So it always will be with brothers bound into a bundle, they cannot be harmed. So it always will be with brothers bound to one another with love. In union there is strength.

SECTION F : Play (ཕྱི་མ་གྲུམ་)

12) ཕྱི་མ་གྲུམ་ ལུ་ལོ་མེ་ ལོ་བའ་ལ་ ཉམ་ རྩོལ་ལ་སྤོ་ རི་སྤོལ་མ་ རྩོལ་ རྩོལ་ལ་ ལུ་ རོ་ལོ་ :-

(ཀ) ཉམ་ལུ་ ལུ་ལོ་མེ་ རི་སྤོལ་ལ་ རི་སྤོལ་ ? (3)

(ཁ) ལུ་ལོ་ རི་སྤོལ་ རི་སྤོལ་ རི་སྤོལ་ རི་སྤོལ་ རི་སྤོལ་ རི་སྤོལ་ ? (3)